

**‘अल्पसंख्यक कल्याण हेतु प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम’ और ‘सच्चर समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन’ के विभिन्न मुद्दों का प्रचार करने वाली सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मीडिया यूनियनों द्वारा चलाए गए प्रचार पर की गई कार्रवाई नोट  
जुलाई - सितंबर, 2021**

**प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी)**

- पीआईबी प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम और सच्चर समिति की सिफारिशों के तहत अल्पसंख्यकों के कल्याण से जुड़े विभिन्न विषयों पर नियमित रूप से विज्ञप्तियां/फीचर जारी करता रहा है।
- इस तिमाही के दौरान पत्र सूचना कार्यालय के द्वारा 1 वार्तालाप उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के कैसरगंज में आयोजित किया गया था।
- इसके विभिन्न क्षेत्रों से इस विषय पर 467 प्रेस विज्ञप्तियां जारी की गईं।

**लोक सम्पर्क और संचार ब्यूरो (बीओसी)**

➤ **प्रिंट विज्ञापन**

- ब्यूरो अल्पसंख्यक कल्याण से संबंधित विषयों पर अखिल भारतीय आधार पर समय-समय पर विज्ञापन जारी करता रहा है जिनमें उनके लिए उपलब्ध भारत सरकार की विभिन्न स्कीमों, निधियों, छात्रवृत्तियों आदि की जानकारी दी जाती है।
- बीओसी ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की ओर से तिमाही के दौरान “मंत्रालय में विशिष्ट कार्यों के लिए युवा पेशेवरों, सलाहकार ग्रेड-II और सलाहकारों की नियुक्ति” विषय पर बीओसी ने एक विज्ञापन जारी किया है जो दिल्ली क्षेत्र में प्रिंट मीडिया पर 1,21,926 रु व्यय करने हेतु प्रतिबद्ध है।

➤ **क्षेत्र प्रचार**

- बीओसी के सभी फील्ड लोक संपर्क ब्यूरो (एफओबी) और क्षेत्रीय लोकसंपर्क ब्यूरो (आरओबी) ने ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीफोन कॉल, एसएमएस और वेबीनार सोशल मीडिया के विभिन्न साधनों के माध्यम से कोविड उपयुक्त व्यवहार और टीकाकरण, आजादी का अमृत महोत्सव, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के गुमनाम नायक, टोक्यो ओलंपिक, डिजिटल इंडिया, पीएमएफबीवाई, राष्ट्रीय पोषण माह, फिट इंडिया, जल शक्ति अभियान, स्वच्छ भारत मिशन और एक भारत श्रेष्ठ भारत आदि जैसे विषयों पर पूरे देश में अल्पसंख्यक क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया।

- सोशल मीडिया/ डिजिटल कार्यकलापों का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

फेसबुक पोस्ट की कुल संख्या	ट्वीट्स और री-ट्वीट ('इंप्रेशन' के साथ) की संख्या	व्हाट्सएप पर परिचालित पोस्टरों/संदेश/वीडियो की कुल संख्या	इंस्टाग्राम पोस्ट की कुल संख्या	वेबिनार की कुल संख्या
10539	99381(1052886)	35176	5460	75

- आरओबी बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर और कोलकाता ने कोविड-19 जागरूकता पर अपने अधिकार क्षेत्र के तहत विभिन्न स्थानों पर मोबाइल वीडियो वैन के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया। एफओबी/ आरओबी ने अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न प्रमुख स्थानों पर कोविड उपयुक्त व्यवहार और टीकाकरण पर विभिन्न पोस्टर लगाए।

### आकाशवाणी

- सभी आकाशवाणी केन्द्रों ने 'अल्पसंख्यक कल्याण' पर उपयुक्त कार्यक्रमों को तैयार करके इस विषय का व्यापक प्रचार किया।
- विभिन्न स्वरूपों का उपयोग किया गया जिसमें- चर्चा, लघु चर्चा, विचार-विमर्श, साक्षात्कार, फोन-इन-प्रोग्राम्स, कम्पीयरिंग, उद्घोषणाएं, पीएसए आदि शामिल थे।
- तिमाही के दौरान आकाशवाणी केंद्रों द्वारा कुल 1348 कार्यक्रम प्रसारित किए गए।

### दूरदर्शन

- देश भर के विभिन्न दूरदर्शन केंद्रों ने विभिन्न स्वरूपों के माध्यम से अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम और सच्चर समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर कार्यक्रम प्रसारित किए।
- कार्यक्रमों के प्रारूप में विचार-विमर्श, वृत्तचित्र, साक्षात्कार-आधारित, लाइव फोन इन स्टूडियो-आधारित, पत्रिकाएं, सफलता की कहानी, सकारात्मक कहानी यात्रा वृत्तांत शामिल थे।
- तिमाही के दौरान दूरदर्शन केंद्रों द्वारा कुल 110 कार्यक्रमों का प्रसारण किया गया।

\*\*\*

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय**  
**जुलाई से सितंबर 2021 तक की राज्यवार तिमाही प्रगति रिपोर्ट (क्यूपीआर)**

क्रमांक	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	पीआईबी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति	आकाशवाणी द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों की संख्या	बीओसी द्वारा एकीकृत संचार और आउटरीच कार्यक्रमों (आईसीओपी) की संख्या	डीडी द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों की संख्या
1	अण्डमान और निकोबार	-	59	-	-
2	आंध्र प्रदेश	27	95	-	2
3	तेलंगाना	28	-	6	2
4	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-
5	असम	28	54	-	-
6	बिहार	25	11	5	7
7	चंडीगढ़	27	-	2	-
8	छत्तीसगढ़	4	19	-	13
9	मध्य प्रदेश	5	30	-	-
10	दादरा और नगर हवेली	-	-	-	-
11	दमन और दीव	-	-	-	-
12	गुजरात	24	-	4	-
13	जम्मू और कश्मीर	-	10	4	-
14	झारखंड	-	11	-	2
15	कर्नाटक	28	193	9	2
16	केरल	-	14	-	6
17	लक्षद्वीप	-	-	-	-

18	लद्दाख	-	11	-	-
19	महाराष्ट्र	49	61	5	-
20	गोवा	-	-	-	-
21	मिजोरम	-	26	-	-
22	मेघालय	-	47	1	3
23	त्रिपुरा	25	16	-	8
24	नगालैंड	-	2	-	-
25	मणिपुर	-	-	-	12
26	पंजाब	9	11	-	-
27	हिमाचल प्रदेश	12	-	-	19
28	हरियाणा	-	-	-	4
29	दिल्ली	28	-	-	-
30	उड़ीसा	-	30	-	3
31	पुदुचेरी	-	-	-	-
32	राजस्थान	54	186	1	6
33	तमिलनाडु	28	81	-	-
34	उत्तराखंड	-	-	-	8
35	उत्तर प्रदेश	38	317	9	6
36	पश्चिम बंगाल	-	5	2	5
37	सिक्किम	28	59	-	2

\*\*\*